

# LEADING LEASING FINANCE AND INVESTMENT CO. LIMITED

Regd. Office: 611, Sixth Floor, Pragati Tower 26 Rajendra Place Opp. Metro Station New Delhi-110008

CIN: L65910DL1983PLC016712

(E) [leadingleasing@gmail.com](mailto:leadingleasing@gmail.com)

(o) 011 - 65632288

(W): [www.llfltd.com](http://www.llfltd.com)

Date: 05<sup>th</sup> February, 2021

To

Bombay Stock Exchange Limited  
Phiroze Jeejeebhoy Towers  
Dalal Street  
Mumbai- 400001

Metropolitan Stock Exchange Of India Limited  
Vibgyor Towers, 4<sup>th</sup> Floor, Plot No. C 62,  
G Block, Opp. Trident Hotel, Bandra Kurla  
Complex, Bandra (E), Mumbai - 400098, India

Sub: Newspaper Advertisement under Regulation 47 read with Regulation 29 of the SEBI  
(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sirs,

With reference to the above captioned subject, please find enclosed herewith the clippings of the English newspaper "**Financial Express**" and Hindi Newspaper "**Jansatta**" dated **05<sup>th</sup> February, 2021** in which notice for Board Meeting has been published. The meeting of the Board will be held, on Friday, 12<sup>th</sup> February, 2021 at 3:00 P.M. at registered office of the Company to consider and take on record the Unaudited Financial Results for the quarter ended 31<sup>st</sup> December, 2020 and any other businesses as may be considered necessary.

This is for your kind information and record please.

Thanking You.

For and on behalf of

LEADING LEASING FINANCE AND INVESTMENT COMPANY LIMITED



AMININEN SHAH

Whole-Time Director

Din: 06792048

Address: 8 - GIRIRAJ 2ND FLOOR KOTACHI  
WADI V.P.ROAD GIRGAON MUMBAI 400004

**ABHINAV LEASING & FINANCE LIMITED**  
(CIN: L65100DL1984PLC018748)  
Regd. Office: S-52, 1st Floor, Vikas Marg, Shakarpur, Delhi 110092  
E-Mail: abhinavleasingfintd@gmail.com  
Website: www.abhinavleasingfintd.in

**NOTICE**

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations 2015, that a meeting of the Board of Directors will be held on **Thursday 11th February, 2021** inter alia, to consider and approve the Un-audited Financial Results of the Company for the quarter ended on **31st December, 2020** along with other business if any.

The information contained in this notice available on the Company's website at www.abhinavleasingfintd.in and the website of Stock Exchange as www.bseindia.com.

For Abhinav Leasing & Finance Limited  
Sd/-  
Date: 04.02.2021 **Atul Kumar Agarwal**  
Place: Delhi (Director)

**RAJADRSHAN INDUSTRIES LTD.**  
Regd. Off: 59, Moti Magri Scheme, Udaipur (Raj) 313001  
CIN: L14100RJ1989PLC002145, Tel: 0294-2427399  
Web: www.rajadrshanindustrieslimited.com  
Email: info@rajadrshanindustrieslimited.com

**NOTICE**

Pursuant to Regulation 29 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that the meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on **Thursday, February 13, 2021** to consider and approve the Un-audited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the quarter and period ended December 31, 2020.

Further the trading window for dealing in the securities of Company shall remain closed till 48 hours of the date of declaration of the un-audited Financial Results of the Company for the quarter and period ended December 31, 2020.

By order of the Board  
Place: Udaipur For Rajadrshan Industries Ltd.  
Date: February 03, 2021 Sd/-  
**Kalp Shrivastava, Company Secretary**

**SABRIMALA INDUSTRIES INDIA LIMITED**  
(Formerly known as Sabrimala Leasing and Holdings Limited)  
CIN: L74100DL1984PLC018467  
Regd. Office: 285, Aggarwal Corporate Heights, Netaji Subhash Place, Pitampura, Delhi-110032  
Website: www.sabrimala.co.in  
Email: cs@sabrimala.co.in Ph: 011-47479723

**NOTICE**

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that the 8th Meeting (52020-21) of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on **Friday, 12th day of February, 2021 at 3:00 P.M.** at the registered office of the Company situated at 285, Aggarwal Corporate Heights, Netaji Subhash Place, Pitampura, Delhi, 110032, inter alia to consider and approve Un-audited Standalone and Consolidated Financial Results for the 3rd Quarter Nine Months Ended December 31, 2020 along with Limited Review Report and approve other items as stated in agenda. The said notice may be accessed on the Company's website at www.sabrimala.co.in and on the website of the relevant stock exchanges.

Further, pursuant to Regulation 47(1) of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 read with the Company's Internal Code of Internal Procedures and Conduct for Regulating, Monitoring and Reporting of Trading by Insiders, the company hereby affirms that the trading window for dealing in the securities of the Company is closed for the Designated Persons covered under the said code of the Company from 2nd January, 2021 till 48 hours of making the financial results available to the public.

By order of the Board  
For Sabrimala Industries India Limited Sd/-  
Place: Delhi Ms. Meena Sharma  
Date: 04.02.2021 Company Secretary

**JBM AUTO LIMITED**  
Our milestones are touchstones  
Regd. Office: 601, Hemkunt Chambers, 89, Nehru Place, New Delhi - 110 019  
CIN: L74899DL1996PLC0083073  
E-mail: jbm.investors@jbmgroup.com  
Website: www.jbmgroup.com  
Ph. 011-26427104-06; Fax: 011-26427100

**COMPANY NOTICE**

Pursuant to the Regulations 29 & 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on **Tuesday, 9th February, 2021 to consider, inter-alia, the un-audited financial results of the Company for the 3rd quarter and nine months ended on 31st December, 2020.**

The details of said meeting are also available on the website of the Company www.jbmgroup.com and on the website of Stock Exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com.

Further, as per the Code of Conduct for Prevention of Insider Trading" of the Company, the "Trading Window" for Directors / Officers / KMPs / Designated Persons of the Company has already been closed from 1st January, 2021 and will end 48 hours after the results are made available to the public on 09th February, 2021.

for JBM AUTO LIMITED  
Sd/- (Vivek Gupta)  
Date: 02.02.2021 Chief Financial Officer  
Place: New Delhi & Company Secretary

**MASTER TRUST LIMITED**  
Regd. Office: Master Chambers, 3rd Floor, 19, Feroze Gandhi Market, Ludhiana-141001 (Pb)  
CIN: L65991PB1985PLC006414  
Tel. No.: 0161-5043500  
E-mail: secretarial@mastertrust.co.in  
Website: www.mastertrust.co.in

**NOTICE**

Notice is hereby given that a meeting of Board of Directors will be held on **Friday the 12th Day of February, 2021** to consider & approve the Un-audited Financial Results (Standalone & Consolidated) of the company for the quarter and nine months ended 31.12.2020.

By order of the Board  
For Master Trust Limited Sd/-  
Place: Ludhiana Company Secretary  
Date: 04.02.2021 (Vikas Gupta)

**PARAMOUNT CABLES**  
CIN: L74899DL1994PLC061295  
Regd. Office: Paramount House, C-125, Naraina Industrial Area, Phase-1, New Delhi-110028  
Ph: +91-11-45618800-900; Fax: +91-11-2589371920  
E-mail: pcd@paramountcables.com; Website: www.paramountcables.com

**NOTICE**

Notice is hereby given, pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held at the Registered office of the Company at C-125, Naraina Industrial Area, Phase-1, New Delhi-110028 on **Thursday, 11th February 2021 at 04:00 P.M.**, to inter-alia, consider and approve the Un-Audited Financial Results for the quarter ended on 31st December, 2020.

Arrangement has also been made for participation of Board Members electronically through video-conferencing facility.

The information contained in this Notice is also available on the website of the company i.e. www.paramountcables.com and the website of the Stock Exchanges where the shares of the Company are listed i.e. BSE Limited (www.bseindia.com) and the National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com).

For Paramount Communications Ltd.  
Sd/- (Rashi Goel)  
Place: New Delhi  
Date: 05.02.2021  
Compliance Officer & Company Secretary

**Paramount Communications Ltd.**  
CIN: L74899DL1994PLC061295  
Regd. Office: Paramount House, C-125, Naraina Industrial Area, Phase-1, New Delhi-110028  
Ph: +91-11-45618800-900; Fax: +91-11-2589371920  
E-mail: pcd@paramountcables.com; Website: www.paramountcables.com

**NOTICE**

Notice is hereby given, pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held at the Registered office of the Company at C-125, Naraina Industrial Area, Phase-1, New Delhi-110028 on **Thursday, 11th February 2021 at 04:00 P.M.**, to inter-alia, consider and approve the Un-Audited Financial Results for the quarter ended on 31st December, 2020.

Arrangement has also been made for participation of Board Members electronically through video-conferencing facility.

The information contained in this Notice is also available on the website of the company i.e. www.paramountcables.com and the website of the Stock Exchanges where the shares of the Company are listed i.e. BSE Limited (www.bseindia.com) and the National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com).

For Paramount Communications Ltd.  
Sd/- (Rashi Goel)  
Place: New Delhi  
Date: 05.02.2021  
Compliance Officer & Company Secretary

**PARAMOUNT CABLES**  
CIN: L74899DL1994PLC061295  
Regd. Office: Paramount House, C-125, Naraina Industrial Area, Phase-1, New Delhi-110028  
Ph: +91-11-45618800-900; Fax: +91-11-2589371920  
E-mail: pcd@paramountcables.com; Website: www.paramountcables.com

**NOTICE**

Notice is hereby given, pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held at the Registered office of the Company at C-125, Naraina Industrial Area, Phase-1, New Delhi-110028 on **Thursday, 11th February 2021 at 04:00 P.M.**, to inter-alia, consider and approve the Un-Audited Financial Results for the quarter ended on 31st December, 2020.

Arrangement has also been made for participation of Board Members electronically through video-conferencing facility.

The information contained in this Notice is also available on the website of the company i.e. www.paramountcables.com and the website of the Stock Exchanges where the shares of the Company are listed i.e. BSE Limited (www.bseindia.com) and the National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com).

For Paramount Communications Ltd.  
Sd/- (Rashi Goel)  
Place: New Delhi  
Date: 05.02.2021  
Compliance Officer & Company Secretary

**BSL Limited**  
PROUD TO BE INDIAN PRIVILEGED TO BE GLOBAL

**STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2020** (₹ in Lacs)

SI No.	Particulars	Quarter Ended		Nine Months Ended		Year Ended
		31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019	
		Unaudited		Audited		
1	Total Revenue from Operations	8880	9960	22978	31561	39004
2	Net Profit / (Loss) for the period (Before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	172	98	(204)	168	(87)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	172	98	(204)	168	(87)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	146	140	(183)	300	166
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	171	156	18	220	(170)
6	Equity Share Capital	1029	1029	1029	1029	1029
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Balance Sheet of previous year	-	-	-	-	6476
8	Earnings Per Share (of ₹ 10/- each) not annualised.					
	Basic : (in ₹)	1.42	1.36	(1.78)	2.92	1.62
	Diluted : (in ₹)	1.42	1.36	(1.78)	2.92	1.62

**Notes:**

- The above financial results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the company at their respective meeting held on 4th February, 2021. The Limited Review for the Results of quarter and nine month ended 31st December, 2020 as required under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation 2015, has been carried out by the Statutory Auditors.
- The financial statements of the Company have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind AS) notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended by the Companies (Indian Accounting Standards) Amendment Rules, 2016, prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013, and other recognized accounting practices and policies to the extent applicable.
- The above is an extract of the detailed format of quarter and Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of quarter & nine month ended 31st December, 2020 Financial Results are available on the websites of Stock Exchange(s) at www.nseindia.com / www.bseindia.com and the Company's website at www.bslltd.com.

By Order of the Board for BSL Limited  
**ARUN CHURIWAL**  
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR  
DIN: 00001718

Registered Office: 26, Industrial Area, Gandhi Nagar, Bhiwara - 311001 (Rajasthan)  
• Tel: (+91-1482) 249101-102, 245000 • Email: accounts@bslindia.com • Website: www.bslltd.com

**PRIME INDUSTRIES LIMITED**  
Regd. Office: Master Chambers, 19, Feroze Gandhi Market, Ludhiana-141001 (Pb)  
CIN: L15490PB1992PLC012662  
Tel. No.: 0161-5043500  
E-mail: prime\_indust@yaho.com  
Website: www.primeindustrieslimited.com

**NOTICE**

Notice is hereby given that a meeting of Board of Directors will be held on **Thursday the 11th Day of February, 2021** to consider & approve the Un-audited Financial Results of the company for the quarter and nine months ended 31.12.2020.

By order of the Board  
For Prime Industries Limited Sd/-  
Place: Ludhiana Managing Director  
Date: 04.02.2021

**SNS PROPERTIES AND LEASING LIMITED**  
Regd. Office: D2-11, Budh Vihar, Phase-1, New Delhi 110086 (DL)  
E-mail: sns\_prop.ltd@gmail.com  
CIN: L65922DL1985PLC020853  
Website: www.snsind.com

**NOTICE**

Notice is hereby given that a meeting of Board of Directors will be held on **Thursday the 11th Day of February, 2021** to consider & approve the Un-audited Financial Results of the company for the quarter and nine months ended 31.12.2020.

By order of the Board  
For SNS Properties And Leasing Ltd Sd/-  
Place: New Delhi (Harvinder Kaur)  
Date: 04.02.2021

**RIBA TEXTILES LIMITED**  
DD-14, Nehru Enclave, Opp. Kalkaji Post Office, New Delhi - 110019  
CIN: L18101DL1989PLC034528  
Tel: +91-26213012 / 26239896  
Fax: +91-26465227

**NOTICE**

Pursuant to provision of regulations 29 read with regulation 47 of the SEBI (Listing obligations and disclosure requirements) regulations 2015, Notice is hereby given, that Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on **Friday, 12th February, 2021 at 04:30 p.m.** at Kishore House, Assandh Road, Panipat-132103, Haryana, inter alia, to consider, approve and take on record the Un-audited Financial results for the Quarter and nine months ended on 31st December 2020.

Further, the Trading Window for in dealing securities of the Company is already closed for all the designated person of the Company and for its immediate relatives under SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, including all amendments thereof, from 01st January 2021 and it will open after the end of 48 hours after the results are made public, for the Quarter and nine months ended on 31st December 2020.

The said notice is also available on the Company's Website www.ribatextiles.com and the Website of Stock Exchange- BSE Ltd. www.bseindia.com

For Riba Textiles Limited Sd/-  
Place: New Delhi (Neha Dubey)  
Date: 04.02.2021 Company Secretary  
M. No.: A46655

**SVAM SOFTWARE LIMITED**  
(CIN: L65100DL1992PLC047327)  
Regd. Office: 224, G/F Swayam Sewa, Co-operative Housing Society Ltd., Jhilimil East Delhi DL 110032  
E-Mail: svamsoftwareltd@gmail.com  
Website: www.svamsoftwareltd.in

**NOTICE**

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations 2015, that a meeting of the Board of Directors will be held on **Friday 12th February, 2021**, inter alia, to consider and approve the Un-audited Financial Result of the Company for the quarter ended on **31st December, 2020** along with any other business if any.

The said notice may be accessed on the Company's website at www.svamsoftwareltd.in and may also be accessed at Stock Exchange Website as www.bseindia.com.

For Svam Software Limited Sd/-  
Date: 04.02.2021 **Manisha Agarwal**  
Place: Delhi (Managing Director)

**INTEGRAL COACH FACTORY**  
CORRIGENDUM TO TENDER NOTICE NO. ICF/PCMM/EOT/01/2021

Existing	Amended as
Tender No.0620008	Tender No. 06200082

All other terms and conditions are remain unaltered.

**GREEN ICF ! CLEAN ICF !**

By order of the Board  
For Integral Coach Factory Limited Sd/-  
Place: New Delhi (Aditya Sharma)  
Date: February 04, 2021  
Company Secretary & Compliance Officer

**COSMO FERRITES LIMITED**  
Regd. Off: P.O. Jabli, Distt. Solan, H.P. - 173209  
CIN: L27106HP1985PLC006378, Tel: 01792-277231-32/3536, Fax: 01792-277234  
E-mail: investorservices@cosmoferrites.com; Website: www.cosmoferrites.com

**NOTICE**

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, NOTICE is hereby given that a Meeting of Board of Directors of the Company will be held on **Wednesday, February 10, 2021** at New Delhi inter-alia to consider and approve the Financial Results of the Company for the Quarter ended 31st December, 2020.

For Cosmo Ferrites Limited Sd/-  
Place: New Delhi (Aditya Sharma)  
Date: February 04, 2021  
Company Secretary & Compliance Officer

**ORACLE CREDIT LIMITED**  
Regd. Off: P-7, Green Park Extension, New Delhi-110016  
CIN: L65910DL1991PLC043281  
E-mail: oracle\_credit@yahoo.co.in; info@oraclecredit.co.in  
Website: www.oraclecredit.co.in; Phone: 011-26167775

**NOTICE OF BOARD MEETING**

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the Meeting of the Board of Directors of the company will be held on **Thursday, February 11, 2021** at the Registered Office of the Company at P-7, Green Park Extension, New Delhi- 110016, inter-alia, to consider, approve and take on record the Un-audited Financial Results of the Company for the quarter and nine months ended December 31, 2020.

This information may be accessed on the Company's website at www.oraclecredit.co.in and on the Stock Exchange's website at www.bseindia.com.

For Oracle Credit Limited Sd/-  
Place: New Delhi (Vineeta Gautam)  
Date: 04.02.2021 (Company Secretary & Compliance Officer)

**A.K. SPINTEX LIMITED**  
Regd. Office: 14 K.M. Stone, Chittor Road, Biliya-Kalan, Bhiwara-311001 (Raj)  
Ph: 9887049006, 9829138002 • Email: aksintex@gmail.com • Website: www.aksintex.com  
CIN: L1717RJ1994PLC008916

**NOTICE FOR BOARD MEETING**

Pursuant to Regulation 29 (1) (a) read with Regulation 47 (1) (a) of SEBI (Listing Regulation and Disclosure Obligations) Regulation, 2015 it is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on **Saturday, 13th February, 2021 at 11:00 A.M.** at the registered office of the company at 14 K.M. Stone, Chittor Road, Biliya-Kalan, Bhiwara-311001 to, inter-alia, consider and approve the Un-audited Financial Statements for the Quarter and Nine Month period 31st December, 2020 along with other routine business.

Further, in terms of Internal Code of Conduct for Prevention of Insider Trading in dealing with Securities of the company, the Trading Window for transaction in securities of the company shall remain closed from 1st January 2021 to 15th February, 2021 (both days inclusive) for insider for the purpose of announcement of aforesaid result.

For A.K. SPINTEX LIMITED  
Ashish Kumar Bagrecha  
Company Secretary & Compliance Officer  
Date: 4th February, 2021

**FORM NO. 5 DEBTS RECOVERY TRIBUNAL**  
600/1, University Road, Near Hanuman Setu Mandir, Lucknow 226007 (Areas of Jurisdiction : Part of Uttar Pradesh)

**SUMMONS FOR FILING REPLY & APPEARANCE BY PUBLICATION**  
O.A. No. 250/2020  
(Summons to Defendant under section 19(3), of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 read with Rules 12 and 13 of the Debts Recovery Tribunal Procedure Rules 1993)

O. A. No. 250 of 2020  
Punjab National Bank  
Shri Ateek  
Shri Ateek  
Shri Ateek Shri Rafiq Qureshi R/o House No. 113, Kassarwan, Khurja, Distt. Bulandshahr

.....Defendant  
.....Defendants

In the above noted Application, you are required to file reply in Paper Book form in Two sets alongwith documents and affidavits (if any), personally or through your duly authorized agent or legal practitioner in this Tribunal, after serving copy of the same on the Applicant or his counsel/duy authorized agent after publication of the summons, and thereafter to appear before the Tribunal on **12.07.2021 at 10.30 A.M.** failing which the application shall be heard and decided in your absence.

Debts Recovery Tribunal, Lucknow  
Registrar

**GOVERNMENT OF UNION TERRITORY OF JAMMU AND KASHMIR OFFICE OF THE CHIEF ENGINEER PMGSY JKRRDA**  
4TH FLOOR JKPCO COMPLEX PANAMA CHOWK JAMMU  
Phone No. 0191-2470284, Fax No. 0191-2479335  
E-mail: cepmgsyjammu@gmail.com

Invitation of Expression of Interest for Empalement of DPR Consulting Agency  
EOI No. 01/CEPMGSY/2021-22 Dated: 30-01-2021

Expression of Interest is invited from approved & eligible consulting agencies for preparation of DPRs including Road survey, Traffic survey with automatic traffic control, soil investigation and vetting of DPRs from State Technical Agency (HOD Civil, GCET, Jammu) for PMGSY Schemes in Districts of Jammu, Samba & Kathua. The Bidding Documents comprising of qualifying information, eligibility criteria and terms of reference of EOI and other details can be downloaded from https://www.pmgstendersjk.gov.in/ as per schedule of dates given below:-

Date of publishing of EOI	30-01-2021
1. Document download/Rate start date	02-02-2021 from 5:00 PM to 13-02-2021 upto 4:00 PM
2. Pre Bid Meeting	04-02-2021 at 11:30 AM in the office of Chief Engineer PMGSY (JKRRDA) Jammu
3. Bid Submission Start Date	05-02-2021 from 10:00 AM
4. Bid Submission closing Date	13-02-2021 upto 04:00 PM
5. Date and Time of Bid opening (Technical)	15-02-2021 at 11:30 AM
6. Date and Time of Bid opening (Financial)	to be notified after technical evaluation

Bid processing cost - Rs. 1000/- (Rupees One Thousand only) Non-refundable in the shape of demand draft in favour of Chief Engineer PMGSY Jammu, payable at Jammu.

No. CE/J.PMSG/17248-267  
Dated:-30/01/2021  
DIPU-10972

Sd/- (Er. ManzoorHussain)  
Chief Engineer  
PMGSY JKRRDA, Jammu

**ANSAL API**  
Building Lifestyles Since 1967  
Ansal Properties & Infrastructure Limited  
Corporate Identity Number: L45101DL1967PLC004759  
Regd. Office: 115, Ansal Bhawan, 16, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110001  
Mobile: 91-9871053419, Tel: 011-23353550, 663026972  
Website: www.ansalapi.com; Email: shareholder@ansalapi.com

**NOTICE**

Notice is hereby given that pursuant to the compliance of Regulations 29, 33 and 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended ("Listing Regulations"), please be informed that a meeting of the Board of Directors of the Company shall be held on **Thursday, 11th February, 2021**, to consider and approve, inter-alia, the Un-Audited Financial Results (Standalone and Consolidated) for the 03rd quarter/nine months ended on the 31st December, 2020 of the Financial Year 2020-21. This is being subjected to Limited Review by the Statutory Auditors of the Company.

Further the Trading Window in respect of aforesaid meeting was closed from the 01st January, 2021 and shall remain closed till the completion of 48 hours after the declaration of aforesaid quarterly Un-Audited Financial Results, in terms of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, as amended.

This information is also available at the website of the Company i.e. www.ansalapi.com and also at the website of Stock Exchanges i.e. BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Ltd. (www.nseindia.com).

For Ansal Properties & Infrastructure Ltd. Sd/-  
Place: New Delhi (Abdul Sami)  
Date: 04.02.2021 General Manager (Corporate Affairs) & Company Secretary  
M. No. FCS-7135

**BERVIN INVESTMENT & LEASING LIMITED**  
Regd. Office: 607, Rohit House, 3 Tolstoy Marg, New Delhi-110001  
CIN: L65993DL1990PLC039397, Web: www.bervin.com, Email: secretary@bervin.com

**Statement of Unaudited Standalone Financial Results for the Quarter Ended 31st December, 2020** (Amount: In Lacs)

Sl. No.	Particulars	Quarter ended		Year ended
		31.12.2020	31.12.2019	
		Unaudited	Unaudited	Audited
1.	Total Income from Operations	25.72	62.41	177.14
2.	Net Profit/(Loss) for the period before tax (before Exceptional and/or Extraordinary items)	8.59	59.90	83.41
3.	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	8.59	59.90	83.41
4.	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	8.59	59.90	66.62
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax))	8.59	59.90	66.62
6.	Equity Share Capital	589.81	589.81	589.81
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	997.85	1,282.25	997.85
8.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (For continuing and discontinued operations)			
	(1) Basic	0.15	1.02	1.41
	(2) Diluted	0.15	1.02	1.41

**NOTES:**

- No Leasing Business has been undertaken during the quarter.
- The above results were reviewed by the Audit Committee and thereafter taken on record and approved by Board of Directors at their meeting held on February 04, 2021.
- Figures for the quarter ended 31st December, 2019 and year ended 31st March, 2020 have been regrouped wherever necessary to make them comparable with figures of the current quarter ended 31st December, 2020.
- As the Company is engaged in a single primary business segment, the disclosure requirement of Accounting Standard (AS-17) 'Segment Reporting' notified under Section 133 of the Companies Act, 2013, read together with paragraph 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 and the relevant provisions of the Companies Act, 2013 are not applicable.
- The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges for the Quarter Ended 31 December, 2020 under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The detailed format of the same is available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) & Company's website (www.bervin.com).

For and on behalf of the Board of Directors Sd/-  
Place: New Delhi (S. K. Murgal (Director))  
Date: 04th February, 2021 DIN: 00040348

**POSESSION NOTICE (Rule 8(1) of Security Interest (Enforcement) Rules 2002)**

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of Union Bank of India (E-Corporation Bank) under the Securitisation, Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (Act No. 54 of 2002) and in exercise of the powers conferred under section 13(2) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued a demand notice dated calling upon the borrower/guarantors on below mentioned date, to repay the amount mentioned in the notice, within 60 days from the date of receipt of the said notice. The Borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower/Guarantors and the public in general, that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said Rules on this 02nd Day of February of the year 2021.

The borrower/guarantors in particular and the Public in General is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Union Bank of India (E-Corporation Bank) for an amount mentioned herein below beside with future interest and other expenses, cost, charges etc against the under mentioned accounts.

The Borrower attention is invited to provision of section 13(3) of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Name of the Borrowers / Guarantors	Description of immovable property	Outstanding Amount	Date of Demand Notice
<b>Borrower:</b> M/s KD Khera & Co Pvt. Ltd. 3B-16 B.P., NIT Faridabad-121001	Property measuring 777 Sq Yards forming part of Bunglow Plot no 3-B/16 situated at NIT Faridabad-121001.	Rs 43,66,211.63 (Rupees Forty three lacs sixty six thousand two hundred eleven and paise sixty three only) plus interest thereon.	17.07.2020
<b>Guarantors:</b> 1. Mr. L.N.Khera, 2. Mr. CP Khera, <b>Legal heirs of late Sri Harish Khera</b> ; 3. Mrs. Neelam Khera, 4. Ruchika Khera, <b>Legal heirs of late Sri Jagdish Khera</b> ; 5. Mr. Mukesh Khera, 6. Mrs. Saroj Khera, 7. Mr. Deepak Khera, 8. Mrs. Sonia Grover, 9. Ms. Sonali Joshi, <b>Common Address for all:</b> 3A-14B, NIT Faridabad-121001			Date of Possession: 02.02.2021

Date: 05/02/2021 Place: Faridabad  
Authorised Officer: Union Bank of India

**WISED GLOBAL LIMITED**  
NH-II, 2ND Floor, C-Block Community Center, Naraina Vihar, New Delhi-110028

**NOTICE**

Pursuant to the provision of Clause 9(I) (C) of the Listing Agreement, notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on **Wednesday, 10th February, 2021, to inter-alia, consider, approve and take on record the Un-audited Results for the quarter ended on 31st December, 2020.**

For Wised Global Limited  
Date: 03/02/2021 **Rakesh Rampa**  
Place: New Delhi  
Whole Time Director

**SATKAR FINLEASE LIMITED**

